



Instructions:

1. Do the entire assignment in a three-in-one notebook.
2. Bring the assignment to the school and submit it to the class teacher when the school reopens.




ENGLISH

1. Arrange these words in alphabetical order:



2. Make five vowel houses and paste or draw pictures of five words from each vowel sound. Write five each vowel sound words:




- a - _____
- e - _____
- i - _____
- o - _____
- u - _____

3. Make the given vowel craft:



4. Colour the pictures by using the colour code:



5. Identify and group the names in common and proper nouns:-

girl Johnny city August river
Himalaya mango Taj Mahal park
England elephant Mumbai book Ganga
mountain boy Fatima

COMMON NOUNS

PROPER NOUNS

6. Change into plural :

- carrot — _____
- book — _____
- mango — _____
- watch — _____
- child — _____
- tooth — _____
- lady — _____
- city — _____
- leaf — _____
- wolf — _____

7. Frame sentences with the given words:




- family - _____
- garden - _____
- swinging - _____
- favourite - _____
- mother - _____




8. Learn and revise, whatever has been taught in the class.

9. Practise page numbers 9 to 22 in the Hudson Cursive Writing Book.

हिंदी

1. बिना मात्रा के दो अक्षर वाले 10 शब्द लखें।
2. बिना मात्रा के तीन अक्षर वाले 10 शब्द लखें।
3. बिना मात्रा के चार अक्षर वाले 10 शब्द लखें।
4. चित्र देखकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें :-



-  राधा _____ खा ।
-  नगमा _____ पहन ।
-  अजय _____ पकड़ ।

-  राघव _____ बजा ।
-  माया _____ साफ़ कर ।
-  सागर _____ मत जला ।


5. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएँ :-

- जल - _____
- रथ - _____
- महल - _____
- कलम - _____
- बरतन - _____
- शरबत - _____
- बादल - _____
- पाठशाला - _____
- त कया - _____
- कताब - _____

6. चित्र देखकर वर्ग पहली पूरी करें :-



7. चित्र के अनुरूप सही रंग लखें :-



8. रंगीन कागज अथवा ऊन की सहायता से चड़िया बनाएँ।

उदाहरण :-



9. "नमन हिंदी सुलेख" अभ्यास पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 से 18 का अभ्यास करें।

10. कक्षा में पढ़ाए गए सभी पाठों का अभ्यास करें।


MATHEMATICS

1. Paste or draw pictures of the following objects:-

- Big object and small object
- Tall object and short object
- Heavy object and light object
- Long object and short object

2. FUN WITH NUMBERS

1. Use your own creativity to make a model of an abacus .



2. Learn and write the number names 1 to 20.
3. What comes before, after and between?

- _____ 67
- 43 _____ 45
- _____ 80 _____
- 55 _____ 57 _____
- _____ 99 _____
- 70 _____ 72

4. Put the correct sign $<$, $>$, $=$:

- 15 ___ 19
- 39 ___ 23
- 14 ___ 14
- 67 ___ 29
- 58 ___ 86

5. Encircle the biggest number and cross out the smallest number:-

- 26 71 42 55 36
- 19 33 15 22 91

6. Write in expanded form (one is done for you):-

- 12 = 1 ten and 2 ones
- 29 = _____
- 36 = _____
- 84 = _____
- 97 = _____
- 57 = _____

7. Arrange the numbers in ascending order:-

- 49 , 26 , 75 , 20
-

- 89 , 55, 31 , 64
-

8. Arrange the numbers in descending order :-

- 51, 37, 86, 95
-

- 60, 88, 43, 27
-

9. Skip one number and fill in the missing numbers:-

- 15 , 17 , _____ , 21 , _____ , 25

- 32 , _____ , 36 , _____ , 40 , _____

EVS

1. Fill in the blanks with the help of the given clues:-

- a) The day we are born is called our _____ (school day/birthday).
- b) I hear the chirping of birds with my _____ (ears/eyes).
- c) I feel the cold ice cream with my _____ (nose/ skin).
- d) We use our hands and legs to _____ (speak/crawl).
- e) We should drink _____ (clean/dirty) water.

2. Write 'True' or 'False':-

- a) We swim using our hands only. _____
- b) Neck is a sense organ. _____
- c) We feel things with our skin. _____
- d) My friend has the same fingerprints as me. _____
- e) I do not have any favourite thing. _____
- f) It is good to play outdoor games to stay active. _____

3. Answer the following questions: -

- a) What do you mean by hobby?
- b) Which sense organ helps us to speak?
- c) Which sense organ helps us to know the colour of an object?
- d) What do we need to grow and stay healthy?
- e) Write any two things that you do to stay fit.

4. Paste the pictures of any 5 objects that we use to keep our body clean .
5. Activity: Me and my world.
Make an album where you have to mention about the following things creatively:-
- My introduction
 - My family
 - My best friend
 - My favourite colour
 - My favourite food
 - My favourite game/toy
 - My favourite cartoon show
 - My hobby...etc
6. Make a beautiful wall hanging of five sense organs and mention their functions too.



Project :

(10 Marks)

BEST OUT OF WASTE:

Make a pencil holder using waste materials (news-paper, cartons or bottles).
Pictures are given for reference.

